

Scam alert: Fake emails in circulation impersonating as CEO I4C

Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)

Date: 24.8.23

This is an important alert about the circulation of counterfeit emails impersonating CEO-I4C, Shri Rajesh Kumar, bearing the subject “Urgent Notification!”, “Court Notification”. These emails employ the logos of the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), Intelligence Bureau (IB), and Delhi Police and wrongfully associate with the names of the undersigned and the particulars of this unit. These misleading emails are targeted to various government offices, individuals and falsely accuse them of cybercrimes, urging them to respond.

The logos and emails in question are intentionally fake, deceptive and created with malicious motives.

It is important to clarify that neither the undersigned nor this unit has initiated such emails. Furthermore, no authorization has been granted by the undersigned for the production or dissemination of such content. Appropriate measures are being taken to address this issue and also shared the tweet alerts:

- I. <https://twitter.com/Cyberdost/status/1695008842374111487?s=20>
- II. <https://twitter.com/Cyberdost/status/1688918696046276608?t=8c76lRPrkhJifaUr3zMVWw&s=08>

Re: Alleged crime against me 1 mess

From: DD <mha.e1@cyberalets.org>
Sent: Mon, 07 Aug 2023 20:27:09
To: "pavanhans44@rediffmail.com" <pavanhans44@rediffmail.com>
Subject: अभिभाषक को

अभिभाषक को

ध्यान दें: नामित पीड़ित के लिए।

भारतीय पुलिस सेवा की साइबर अपराध इकाई आपसे तुरंत आपके खिलाफ संलग्न कथित न्यायालय आदेश का जवाब देने का अनुरोध करती है।

पुलिस जांच विभाग एक साइबर अपराध विशेष इकाई के माध्यम से कार्य करता है जो साइबर अपराधों के सभी जटिल और संवेदनशील मामलों को संभालता है, जिसमें पीड़ित महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। साइबर अपराध इकाई एक अत्याधुनिक साइबर प्रयोगशाला से सुसज्जित है जिसमें साइबर फॉरेंसिक क्षमताएं हैं जैसे हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन से हटाए गए डेटा को निकालना, इमेजिंग और हेरि वैल्यू गणना, फॉरेंसिक सर्वर, ऑन-साइट जांच के लिए पोर्टेबल फॉरेंसिक उपकरण, नवीनतम एंड्रॉइड और आईओएस फोन के साथ-साथ चीनी फोन से डेटा निकालने की सुविधा।

साइबर प्रयोगशाला उपकरण किसी भी पीड़ित के लिए किशोर अश्लील साइटों पर बिना पता लगाए या डिजिटल रूप से कैचर किए जाना बेहद कठिन बना देता है।

यदि आपको अपने विरुद्ध संलग्न न्यायालय आदेश के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो हमें सूचित करने में संकोच न करें।

24 घंटे के भीतर इस न्यायालय आदेश का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपके खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आपको चेतावनी दी जाती है,

Shri Rajesh Kumar

सीईओ, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

5वीं मंजिल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - भारत



Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C)
5th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi - India



By the mandate of Shri. Rajesh Kumar, CEO of the Indian Cyber Crime Coordination Centre: in partnership with Central Bureau of Investigation (CBI) which is the National Nodal Agency for INTERPOL in India; I, hereby notify you of a computerized seizure of Cyber-infiltration captured on your internet protocol address (IP) in relation to the following analysis:-

- **CHILD PORNOGRAPHY
- **PEDOPHILIA
- **CYBER PORNOGRAPHY
- **EXHIBIT
- **GROOMING



The Criminal Code Of India Section 14 of the POCSO Act 2012, Section 292, Section 67A, and Section 67B of the Information Technology Act, of 2000 criminalizes the publication or transmission of sexually explicit acts or conduct in electronic form of Juvenile pornography and is punishable on first conviction by imprisonment.

The Central Bureau of Investigation (CBI) and Indian Cybercrime Units perform an investigative role against victims through the technology of information, **suggests, Possess, produce, disseminate or access child pornographic images and materials** within our territory.

The Government has also given a number of steps to be implemented by Internet Service Providers (ISPs) to protect children from sexual abuse online. These, inter-alia include:

Blocking of websites containing extreme Child sexual Abuse Material (CSAM) based on INTERPOL's **"Worst-of-list"** shared periodically by Central Bureau of Investigation (CBI) which is the National Nodal Agency for Interpol. The list is shared with Department of Telecommunications (DoT), who then directs major ISPs to block such websites

For discretion sake, I decided to reach you privately before transferring your case files to the Justice prosecutors for immediate prosecution.

With immediate effect, respond to this message and state your justifications for a further review before appropriate sanctions will be impose within 24 hours.

Failure to respond within 24 hours from now, the prosecutor will establish an arrest warrant against you through the closest Police Station.

After prosecution, your information will be sent to the National Register for minor Sex Offenders, associations fighting against PEDOPHILIA and to the Media for publication.

Respond immediately,

Tapan Deka
Director of the Intelligence Bureau



Shri Rajesh Kumar
CEO, Indian Cyber Crime Coordination Centre